

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्रसाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० ४६]

नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी ११, १९७०/माघ २२, १८९१

No. 46]

NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 11, 1970/MAGHA 22, 1891

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह प्रलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation.

MINISTRY OF LABOUR, EMPLOYMENT AND REHABILITATION

(Department of Labour and Employment)

ORDER

New Delhi, the 11th February 1970

S.O. 612.—Whereas by an order of the Government of India in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Department of Labour and Employment) No. 12(2)/70-LRIV, dated the 31st January, 1970 an industrial dispute between the employers in relation to 12 Stone Quarries at Chandivali, Bombay and their workmen has been referred to the Central Government Industrial Tribunal (No. 2) Bombay, for adjudication.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section (3) of the section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby prohibits the continuance of the strike in existence in the said Quarries in connection with the said dispute.

[No. 12(2)/70-LRIV.]

P. C. MISRA, Under Secy.

(197)

